



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2016/आ"ताद 31, 1938

No. 301]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2016/ASADHA 31, 1938

**महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण****अधिसूचना**

मुम्बई, 14 जुलाई, 2016

सं. टीएएमपी/72/2012-आईएसएचपीएल.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, इंटरनेशनल सीपोर्ट्स (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड की विद्यमान दर मानों की वैधता अवधि को बढ़ाते हैं, जैसाकि इसके साथ संलग्न आदेश में विनिर्दिष्ट है।

**महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण**

संख्या. टीएएमपी/72/2012- आईएसएचपीएल

**इंटरनेशनल सीपोर्ट्स (हल्दिया) प्रा. लि.**

---

आवेदक

**गणपूर्ति**

- (i). श्री. टी. एस. बालसुब्रमनियन (वित्त)  
(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

**आदेश**

(जुलाई, 2016 के इस 5वें दिन को पारित)

यह मामला इंटरनेशनल सीपोर्ट्स (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएचपीएल) की विद्यमान दर मानों (एसओआर) की वैधता अवधि को बढ़ाने से संबंधित है।

2. आईएसएचपीएल की विद्यमान दर मानों को विगत में इस प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/72/2012-आईएसएचपीएल दिनांक 4 जुलाई 2014 द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में 7 अगस्त 2014 को अधिसूचित किया गया था। इस आदेश में दर मानों की वैधता की अवधि 31 मार्च, 2016 तक निर्धारित की गई है।

3. अब, आईएसएचपीएल ने अपने पत्र संख्या आईएसएचपीएल/केओएल/2016-17 दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा उल्लेख किया है कि दर मानों में सामान्य संशोधन से संबंधित उनका प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है। आईएसएचपीएल ने यह भी उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से संबंधित वार्षिक लेखे प्रक्रियाधीन हैं और उसी वर्ष के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षा का कार्य प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए काफी अधिक समय की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को देखते हुए, आईएसएचपीएल ने इस प्राधिकरण से आईएसएचपीएल की वर्तमान दर मानों की वैधता अवधि को 31 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। आईएसएचपीएल ने यह भी उल्लेख किया है कि वे सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव 30 सितम्बर 2016 के अंत तक प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।

4. आईएसएचपीएल के विद्यमान दर मानों की वैधता की अवधि पहले ही 31 मार्च, 2016 को समाप्त हो गई है। तथापि, इसीलिए उन्होंने अब अपने दर मानों की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। आईएसएचपीएल द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित समय पर विचार करते हुए और आईएसएचपीएल के दर मानों के संबंध में शून्य की स्थिति से बचने के उद्देश्य से, आईएसएचपीएल के विद्यमान दर मानों की वैधता की अवधि को 31 मार्च, 2016 के पश्चात भी बढ़ाना उपयुक्त समझा गया है। तथापि, ऐसे ही समय में, अन्य मामलों की भांति लम्बी अवधि के लिए वैधता की अवधि को बढ़ाने संबंधी आईएसएचपीएल के अनुरोध को उपयुक्त नहीं समझा गया है। इस प्राधिकरण ने दर मानों की वैधता अवधि को 30 सितम्बर, 2016 तक ही बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है।

5. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, यह प्राधिकरण आईएसएचपीएल के विद्यमान दर मानों की वैधता अवधि का विस्तार करने के लिए तत्पर है। तदनुसार, आईएसएचपीएल को 2005 की प्रशुल्क नीति के अनुसार अपना प्रस्ताव हर हालत में 31 जुलाई 2016 तक प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)  
[विज्ञापन-III/4/असा./143/16(183)]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 14th July, 2016

**No. TAMP/72/2012-ISHPL.**— In exercise of the powers conferred by Section 48,49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of International Seaports (Haldia) Private Limited as in the Order appended hereto.

### Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/72/2012-ISHPL

International Seaports (Haldia) Pvt. Ltd. ---

Applicant

### QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 5th day of July, 2016)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates (SOR) of International Seaports (Haldia) Private Limited (ISHPL).

2. The existing SOR of ISHPL was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/72/2012-ISHPL dated 4 July 2014. This Order was notified in the Gazette of India on 7 August 2014. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2016.

3. Now, the ISHPL vide its letter no. ISHPL/KOL/2016-17 dated 17 June 2016 has stated that its proposal for General revision of the SOR is under preparation. The ISHPL has also stated that the Annual accounts for F.Y. 2015-16 is under process and the Statutory Audit for the same year is going to start, which requires extensive time. In view of this position, the ISHPL has requested this Authority to extend the validity of the present SOR of ISHPL till 31 December 2016. The ISHPL has also stated that they will try to submit the proposal for General Revision by end of 30 September 2016.

4. The validity of the existing SOR of ISHPL has already expired on 31 March 2016. However, it is only now that they have sought for extension of validity of its Scale of Rates. Considering the time required for processing the proposal (to be) filed by the ISHPL and in order to avoid a vacuum in the Scale of Rates of ISHPL, it is felt appropriate to extend the validity of the existing Scale of Rates of ISHPL beyond 31 March 2016. However, at the same time it is not felt appropriate to extend the validity for a longer period of time as requested by ISHPL, as in other cases, this Authority has granted extension of validity of SOR upto 30 September 2016 only.

5. In view of the above position, this Authority is inclined to extend the validity of the existing Scale of Rates of ISHPL upto 30 September 2016. Accordingly, the ISHPL is advised to file its proposal in accordance with the 2005 Tariff Guidelines, positively by 31 July 2016.

**T. S. BALASUBRAMANIAN**, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/16(183)]